

D
(21223)
U. G. -V Sem.

Roll No.

(2)

Section-A

खण्ड-अ

(Very Short Answer Type Questions)

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

Answer all the five questions. Each question carries 3 marks. Very short answer is required.

3×5=15

सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। अति लघु उत्तर अपेक्षित है।

1. What do you mean by dual GST?
दोहरे जीएसटी से आप क्या समझते हैं ?

2. How would you determine the nature of Intra-State and Inter-State supply of goods and services?

आप वस्तुओं और सेवाओं की अन्तरराज्यीय और अन्तरराज्यीय आपूर्ति की प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे?

NEP-5072

NEP-5072

U. G. Examination, Dec. 2023

MAJOR COURSE (UNDER N.E.P.)

COMMERCE

Goods & Service Tax

[Paper Code : C010502T]

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 75

Note : Attempt questions from all Sections as per instructions.

सभी खण्डों से निर्देशानुसार प्रश्न हल कीजिए।

(3)

What are the criteria to utilize input tax credit?

इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करने के मानदंड क्या हैं?

Decode the 15 digits of GSTIN with example.

(Sample GSTIN-01LL1LL0000L2Z5)

उदाहरण सहित जीएसटीआईएन के 15 अंकों को डिकोड

कीजिए। (नमूना GSTIN-01LLLLL0000L2Z5)

5. A shopkeeper has made the following supplies during the month of November 2023 :

एक दुकानदार ने नवम्बर 2023 के महीने के दौरान

निम्नलिखित आपूर्ति की है :

	₹
(a) Groundnuts (not roasted) मूँगफली (भुनी नहीं)	2,00,000
(b) Cornflakes कॉर्नफ्लेक्स	80,000

(4)

(c) Chocolates 92,000

चॉकलेट

(d) Food grains 5,00,000

खाद्यान्न

Calculate the taxable turnover and payable GST @ 12%.

करयोग्य टर्नओवर और देय जीएसटी @ 12% की गणना कीजिए।

Section-B

खण्ड-ब

(Short Answer Type Questions)

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

Answer any two questions out of the following three questions. Each question carries 7½ marks.

Short answer is required.

7½ × 2 = 15

(5)

निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7½ अंकों का है। लघु उत्तर अपेक्षित है।

6. Distinguish between Intra-State supply and Inter-State supply with example.

अंतरराज्यीय आपूर्ति और अंतरराज्यीय आपूर्ति के बीच अंतर उदाहरण के साथ बताइए।

7. Following are the particulars of the Alliance Advertising Agency regarding their services for the quarter ended on 31st December, 2018:

31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त विमाही के लिए उनकी सेवाओं के सम्बन्ध में एल्लायंस एडवर्टाइजिंग एजेंसी का विवरण निम्नलिखित है:-

(6)

₹

- | | |
|--|----------|
| (a) Charges for advertisements put on hoarding at common public places | 5,00,000 |
| आम सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग्स पर लगाए गए विज्ञापनों का शुल्क | |
| (b) Charges for advertisements on FM Radio | 3,45,000 |
| एफएम रेडियो पर विज्ञापन के लिए शुल्क | |
| (c) Charges for making advertisement campaign | 8,00,000 |
| विज्ञापन अभियान बनाने का शुल्क | |
| (d) Procuring TV time slots to telecast an advertisement | 6,00,000 |
| विज्ञापन प्रसारित करने के लिए टीवी टाइम स्लॉट की खरीद | |

7) Printed advertisements in

newspapers

3,55,000

अखबारों में छपे विज्ञापन

Calculate the taxable services and GST payable thereon, if all charges are exclusive of GST. GST rate for print media is 5% and 18% for others.

करयोग्य सेवाओं और उन पर देय जीएसटी की गणना कीजिए, यदि सभी शुल्क जीएसटी से अलग हैं। प्रिंट मीडिया के लिए जीएसटी दर 5% और अन्य के लिए 18% है।

8. Which type of the items are included in 'transaction value' and which type of the items are not included in 'transaction value'?

किस प्रकार की वस्तुएँ 'लेनदेन मूल्य' में शामिल हैं और

किस प्रकार की वस्तुएँ 'लेनदेन मूल्य' में शामिल नहीं हैं?

Section-C

खण्ड-स

(Detailed Answer Type Questions)

(विस्तृत उत्तरीय प्रश्न)

Answer any *three* questions out of the following five questions. Each question carries 15 marks. Answer is required in detail. 15×3=

निम्नलिखित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है।

9. What do you mean by return? Discuss the various types of returns.

रिटर्न से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के रिटर्न पर चर्चा कीजिए।

(9)

10. Who is liable to take registration under GST based on threshold limit as per Sec. 22 of CGST Act, 2017 and who is liable to take compulsory registration under Sec. 24 of CGST Act, 2017?
सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 22 के अनुसार सीमारेखा के आधार पर जीएसटी के तहत पंजीकरण लेने के लिए कौन उत्तरदायी है और सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 24 के तहत अनिवार्य पंजीकरण लेने के लिए कौन उत्तरदायी है?

11. Explain the concept of GST. Discuss the salient features and need of GST.
जीएसटी की अवधारणा को समझाइए। जीएसटी की मुख्य विशेषताओं और आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

(10)

12. Discuss the provisions of:
प्रावधानों पर चर्चा कीजिए :

(a) Time of supply of goods under forward charge

फॉरवर्ड चार्ज के तहत माल की आपूर्ति का समय

(b) Time of supply of service under forward charge

अग्रिम प्रभार के अन्तर्गत सेवा की आपूर्ति का समय

(c) Time of supply of goods under reverse charge

रिवर्स चार्ज के तहत माल की आपूर्ति का समय

(d) Time of supply of service under reverse charge.

रिवर्स चार्ज के तहत सेवा की आपूर्ति का समय।

13. Determine the time of supply in the following cases assuming the GST is payable under reverse charge:

NEP-5072

(11)

निम्नलिखित मामलों में आपूर्ति का समय यह माना जाएगा
निर्धारित की जाए कि जीएसटी रिटर्न चार्ज के तहत दाय है :

Sl. No.	Date of Receipt of Goods	Date of Payment by the Recipient of Goods	Date of Issue of Invoice by the Supplier of Goods माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा वास्तव में करने की तारीख
क. सं.	माल की प्राप्ति की तारीख	माल के प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान की तारीख	
1.	1st July/ जुलाई	10th August अगस्त	29th June/ जून
2.	1st July/ जुलाई	25th June जून	29th June/ जून
3.	1st July/ जुलाई	Part payment made on 30th June & balance amount paid on 20th July आंशिक भुगतान 30 जून को और शेष राशि का भुगतान 20 जुलाई को किया गया	29th June/ जून

NEP-5072

(12)

4.	5th July/ जुलाई	Payment is entered in the books of account on 28th June and debited in recipient's bank account on 30th June भुगतान 28 जून को खाने की पुस्तकों में दर्ज किया जाता है और 30 जून को प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में डेबिट किया जाता है	1st June/ जून
5.	1st July/ जुलाई	Payment is entered in the books of account on 30th June and debited in recipient's bank account on 26th June भुगतान 30 जून को खाते की किताबों में दर्ज किया जाता है और 26 जून को प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में डेबिट किया जाता है	29th June/ जून
6.	1st August/ अगस्त	10th August अगस्त	29th June/ जून